



खंड 25

संख्या 13

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2009	2010		घट-बढ़	
	20 मार्च	12 मार्च	19 मार्च #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	6,82,097	7,90,601	7,91,228	627	1,09,131
संचलन में नोट	6,82,086	7,90,584	7,91,215	630	1,09,128
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	17	14	-3	3
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	101	101	13,983	13,882	13,882
बाजार स्थिरीकरण योजना	88,077	2,737	2,737	—	-85,340
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,19,176	2,77,982	2,81,695	3,713	62,518
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	2,723	3,978	4,480	501	1,756
अन्य बैंक	9,631	13,072	13,236	164	3,605
अन्य	11,646	11,741	12,470	729	824
अन्य देयताएं	3,94,447	3,31,992	3,26,304	-5,688	-68,143
कुल देयताएं / आस्तियां	14,07,940	14,32,245	14,46,173	13,928	38,233
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,20,850	11,61,568	11,55,624	-5,944	-65,226
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	49,440	82,845	82,845	—	33,405
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1,01,191	1,64,299	1,87,992	23,693	86,801
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	—	1,041	324	-717	324
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	13,730	95	35	-60	-13,695
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	8,614	4,475	4,037	-438	-4,577
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	2,750	2,750	—	—
अन्य आस्तियां	11,366	15,172	12,566	-2,606	1,200

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइएफएसडी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	19 मार्च 2010 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2009 की समाप्ति पर		दिसंबर 2009 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	12,66,569	278,193	-6,097	-1,515	-17,296	26,208	-56,666	-5,277	-6,688	24,367
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	11,54,487	253,845	-5,945	-1,476*	-75,579	12,419	-52,578	-4,738	-65,109	10,607
(ख) स्वर्ण \$	82,845	17,920	—	—	34,052	8,343	-2,542	-372	33,405	8,174
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	22,918	5,039	-119	-30	22,912	5,038	-1,210	-130	22,912	5,038
(घ) आइएएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	6,319	1,389	-33	-9	1,319	408	-336	-37	2,104	548

- + : आइएएमएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया 1137 करोड़ रुपए / 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश छोड़कर।
 * : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
 ** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।
 @ : इसमें सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
 \$: इसमें 31,463 करोड़ रुपए (6,699 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	12 मार्च 2010 को बकाया #	पखवाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2008-2009	2009-2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	58,364	2,178	-1,236	9,509	4,953	12,822
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	20,764	-76	-1,855	-8,723	-1,390	-10,377
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	5,900	46	9,602	-15,873	7,874	-22,082
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	44,02,943	39,613	5,29,895	5,68,834	6,46,773	6,76,109
			(0.9)	(16.6)	(21.0)	(18.1)
मांग	5,65,279	-3,374	-48,679	42,194	31,876	89,648
मीयादी	38,37,664	42,986	5,78,573	5,26,639	6,14,897	5,86,461
उधार ⁽³⁾	1,04,382	-1,122	10,842	-9,554	9,390	-12,964
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,34,289	-3,760	10,721	26,768	3,150	25,212
रिजर्व बैंक से उधार	95	-145	3,992	-11,633	7,509	-7,897
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,02,722	-3,690	-53,640	44,247	-48,716	81,197
पास में नकदी	24,741	-1,977	2,605	4,460	3,700	4,091
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,77,982	-1,713	-56,246	39,787	-52,417	77,105
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	54,187	1,419	10,512	1,278	12,983	7,658
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11,601	-1,049	-318	-3,437	272	-8,006
बैंकों को अग्रिम	4,540	1,736	-1,027	1,636	-653	1,788
अन्य आस्तियां	38,037	7,136	19,139	-13,684	19,137	-12,259
निवेश⁽⁵⁾	13,86,937	7,641	2,08,417	2,20,527	1,97,305	2,06,805
		(0.6)	(21.4)	(18.9)	(20.1)	(17.5)
सरकारी प्रतिभूतियों में	13,79,917	14,686	2,10,947	2,24,131	1,99,835	2,10,308
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	7,020	-7,045	-2,530	-3,605	-2,529	-3,503
बैंक ऋण	31,24,850	35,527	3,30,845	3,49,301	4,15,120	4,32,091
		(1.2)	(14.0)	(12.6)	(18.2)	(16.0)
खाद्य ऋण	49,402	1,511	3,503	3,191	4,397	1,500
खाद्योत्तर ऋण	30,75,448	34,017	3,27,342	3,46,110	4,10,723	4,30,591
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	30,10,137	35,290	3,35,438	3,34,461	4,14,195	4,13,123
देशी बिल - खरीदे गए	11,474	-116	-986	-240	71	-134
भुनाए गए ⁽⁶⁾	58,671	424	1,363	15,514	3,737	16,755
विदेशी बिल - खरीदे गए	17,335	74	-545	-1,187	736	1,381
भुनाए गए	27,232	-144	-4,425	753	-3,619	966
नकद-जमा अनुपात	6.88					
निवेश-जमा अनुपात	31.50					
ऋण-जमा अनुपात	70.97					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुकूपी मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2009	2010					
	13 मार्च	5 फरवरी	12 फरवरी	19 फरवरी	26 फरवरी	5 मार्च	12 मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.75	5.75
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	11.50-12.50	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00
जमा दर ⁽⁴⁾	7.75-8.75	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50
मांग मुद्रा दर (न्यूनतम/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	2.00/4.50	1.00/3.40	0.75/3.40	2.00/3.40	1.75/3.75	1.50/3.40	1.50/4.75
- दिये गए उधार	2.00/4.50	1.00/3.40	0.75/3.40	2.00/3.40	1.75/3.75	1.50/3.40	1.50/4.75

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

(करोड़ रुपए)

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2009	2010	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2008-2009		2009-2010		2009		2010	
	31 मार्च #	12 मार्च #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम₃	47,64,019	54,74,489	57,526	1.1	6,45,750	16.1	7,10,470	14.9	7,72,633	19.9	8,10,857	17.4
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	6,66,364	7,72,559	17,481	2.3	1,01,169	17.8	1,06,196	15.9	99,069	17.4	1,02,980	15.4
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	5,81,247	6,26,675	-3,166	-0.5	-48,123	-8.3	45,428	7.8	36,780	7.5	96,426	18.2
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	35,10,835	40,71,705	43,353	1.1	5,95,041	20.8	5,60,870	16.0	6,34,912	22.5	6,14,619	17.8
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	5,573	3,550	-142	-3.8	-2,337	-25.8	-2,023	-36.3	1,872	38.6	-3,168	-47.2
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	12,77,199	16,13,331	25,449	1.6	3,26,210	36.3	3,36,132	26.3	3,63,410	42.1	3,87,603	31.6
(क) रिजर्व बैंक	61,580	1,62,603	10,727		1,09,931		1,01,023		1,58,175		1,65,881	
(ख) अन्य बैंक	12,15,619	14,50,728	14,722	1.0	2,16,280	21.4	2,35,109	19.3	2,05,234	20.0	2,21,722	18.0
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	30,13,337	33,65,846	29,763	0.9	3,40,798	13.2	3,52,510	11.7	4,28,660	17.2	4,46,058	15.3
(क) रिजर्व बैंक	13,820	5,775	1,062	—	6,315	—	-8,045	—	6,720	—	-2,328	—
(ख) अन्य बैंक	29,99,517	33,60,071	28,701	0.9	3,34,484	13.0	3,60,555	12.0	4,21,940	16.9	4,48,386	15.4
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,52,184	12,93,078	-13,790	-1.1	27,580	2.1	-59,105	-4.4	55,083	4.3	-29,633	-2.2
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	10,054	10,731	—	—	760	8.2	677	6.7	847	9.3	747	7.5
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रांतर देयताएं उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्रांतर देयताएं	8,88,754	8,08,498	-16,104	-2.0	49,599	6.5	-80,257	-9.0	75,368	10.2	-6,081	-0.7
	3,87,927	3,23,703	-16,001	-4.7	1,78,387	84.9	-64,224	-16.6	1,65,560	74.2	-64,905	-16.7

* : 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार खाते के बंद होने के पश्चात सरकारी बकाये।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2009	2010	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2008-2009		2009-2010		2009		2010	
	31 मार्च #	19 मार्च #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	9,88,001	11,05,634	5,737	0.5	160	—	1,17,634	11.9	34,224	3.8	1,77,172	19.1
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	6,91,153	8,01,946	630	0.1	1,01,270	17.1	1,10,793	16.0	98,469	16.6	1,09,875	15.9
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	2,91,275	2,99,410	4,378	1.5	-96,917	-29.5	8,135	2.8	-64,199	-21.7	67,879	29.3
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	5,573	4,278	729	20.5	-4,193	-46.3	-1,294	-23.2	-45	-0.9	-583	-12.0
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	61,580	1,71,672	9,069		1,26,305		1,10,092		1,52,116		1,58,576	
	61,761	1,71,389	9,786		1,27,773		1,09,628		1,51,483		1,58,252	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	24,177	5,372	-498		17,265		-18,805		15,070		-18,271	
	10,357	35	-60		9,220		-10,322		7,540		-13,775	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	12,80,116	12,38,451	-5,944	-0.5	34,143	2.8	-41,665	-3.3	40,280	3.3	-31,821	-2.5
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	10,054	10,731	—	—	760	8.2	677	6.7	847	9.3	747	7.5
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्रांतर देयता	3,87,927	3,20,593	-3,110	-1.0	1,78,313	84.8	-67,334	-17.4	1,74,088	81.2	-67,941	-17.5

* : 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2009 के स्थिति के अनुसार खाते के बंद होने के पश्चात सरकारी बकाये।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ रुपए)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+) / कमी (-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां संख्या	प्राप्त बोलियां राशि	स्वीकृत बोलियां संख्या	स्वीकृत बोलियां राशि	कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां संख्या	प्राप्त बोलियां राशि	स्वीकृत बोलियां संख्या	स्वीकृत बोलियां राशि	कट-ऑफ दर (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 मार्च 2010	2	—	—	—	—	—	8	4,230	8	4,230	3.25	-4,230	4,230
17 मार्च 2010	1	—	—	—	—	—	9	6,455	9	6,455	3.25	-6,455	6,455
18 मार्च 2010	1	—	—	—	—	—	24	25,190	24	25,190	3.25	-25,190	25,190
19 मार्च 2010	3	1	400	1	400	4.75	16	5,430	16	5,430	3.25	-5,030	5,030

@ : रिपो को घटाकर।

'—' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

टिप्पणी : 1. 8 मई 2009 से दूसरा एलएफएफ रिपोर्टिंग शुक्रवार को आयोजित किया जा रहा है।
2. बैंकों के लिए विशेष स्थिर दर रिपो और फॉरेक्स स्वेप सुविधा 27 अक्टूबर 2009 से समाप्त की गई है।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपए)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीयखजानाबिल													
2009-2010													
1 जुलाई	3 जुलाई	2,000	44	12,557	—	1	2,000	—	—	2,000	99.23	3.1124	82,000
7 अक्टू.	9 अक्टू.	7,000	92	24,495	—	21	7,000	—	—	7,000	99.20	3.2347	75,500
6 जन.	8 जन.	7,000	95	14,967	—	67	7,000	—	—	7,000	99.11	3.6835	71,500
17 मार्च	19 मार्च	5,000	85	15,755	—	44	5,000	—	—	5,000	98.93	4.4202	71,503
182-दिवसीयखजानाबिल													
2009-2010													
8 जुलाई	10 जुलाई	1,500	52	4,717	—	5	1,500	—	—	1,500	98.32	3.4268	20,375
14 अक्टू.	16 अक्टू.	2,000	88	6,155	—	35	2,000	—	—	2,000	98.05	4.0511	20,500
6 जन.	8 जन.	1,500	74	5,897	—	9	1,500	—	—	1,500	98.02	4.0720	21,500
17 मार्च	19 मार्च	3,000	114	15,690	—	8	3,000	—	—	3,000	97.74	4.6792	21,500
364-दिवसीयखजानाबिल													
2009-2010													
1 जुलाई	3 जुलाई	1,000	56	3,650	—	8	1,000	—	—	1,000	96.36	3.8095	46,491
7 अक्टू.	9 अक्टू.	2,000	76	6,040	—	27	2,000	—	—	2,000	95.65	4.5932	42,013
13 जन.	15 जन.	1,000	69	4,503	—	8	1,000	—	—	1,000	95.60	4.6700	41,765
10 मार्च	12 मार्च	3,000	101	9,135	114	36	3,000	114	—	3,114	95.17	5.1223	41,521

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।
2. जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों की अनुमति दी गई है।
3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12 मार्च 2010	27 फरवरी	28 फरवरी	1 मार्च	2 मार्च	3 मार्च	4 मार्च	5 मार्च	6 मार्च	7 मार्च	8 मार्च	9 मार्च	10 मार्च	11 मार्च	12 मार्च
	2,79,598	5,59,197	8,39,667	11,30,279	13,98,320	16,56,454	19,19,241	21,79,804	24,40,368	26,99,826	29,52,509	31,97,608	34,89,693	37,67,977
26 मार्च 2010	13 मार्च	14 मार्च	15 मार्च	16 मार्च	17 मार्च	18 मार्च	19 मार्च	20 मार्च	21 मार्च	22 मार्च	23 मार्च	24 मार्च	25 मार्च	26 मार्च
	2,75,583	5,51,167	8,69,178	11,88,192	14,80,224	17,39,805	20,21,764							

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	व्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
10 अप्रैल 2009	1,98,497	12,125	5.90 — 11.50
3 जुलाई 2009	2,28,638	13,913	3.34 — 8.25
9 अक्टूबर 2009	2,25,781	13,373	3.70 — 6.05
1 जनवरी 2010	2,64,246	31,102	3.75 — 6.75
29 जनवरी 2010	2,82,284	21,909	3.09 — 6.51
12 फरवरी 2010	2,78,388	22,171	3.35 — 6.76

@ : प्रभावी वार्षिक व्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अप्रैल 2009	46,551	2,918	6.00 — 12.50
15 जुलाई 2009	77,560	12,334	3.04 — 8.85
15 अक्टूबर 2009	91,930	19,066	2.98 — 9.00
15 जनवरी 2010	92,363	11,503	3.15 — 7.55
15 फरवरी 2010	96,152	6,582	3.30 — 8.00
28 फरवरी 2010	97,000	5,939	3.20 — 8.50

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास ।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद	भार	2009	2010		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		7 मार्च	9 जन. *	6 मार्च #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	247.1	287.5	282.1	-0.9	-1.3	13.3	14.2
(i) फल और सब्जियां	2.92	238.7	284.3	258.1	-3.9	-8.1	6.4	8.1
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	321.0	354.5	361.7	0.1	1.7	12.7	12.7
विनिर्मित उत्पाद @	63.75	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	2.76	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट	1.73	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	..	..	..	..	..	..	..

* : अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ : आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2009	2010				
	19 मार्च	15 मार्च	16 मार्च	17 मार्च	18 मार्च	19 मार्च
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	9001.75	17164.99	17383.18	17490.08	17519.26	17578.23
एसएंडपी सोएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	2807.15	5128.90	5198.10	5231.90	5245.90	5262.80

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	5 फरवरी 2010	12 फरवरी 2010	19 फरवरी 2010	26 फरवरी 2010	5 मार्च 2010	12 मार्च 2010	19 मार्च 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	4,094	5,190	6,259	5,584	9,198	6,197	8,496
ख) दिए गए ऋण	4,889	5,974	6,919	6,423	10,237	6,936	9,238
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	796	784	694	839	1,039	740	742
ख) दिए गए ऋण	1	—	34	—	—	1	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	4,890	5,974	6,953	6,423	10,237	6,937	9,238
ख) दिए गए ऋण	4,890	5,974	6,953	6,423	10,237	6,937	9,238

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	12 फरवरी 2010	19 फरवरी 2010	26 फरवरी 2010	5 मार्च 2010	12 मार्च 2010	19 मार्च 2010
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	64,746	75,785	80,550	63,723	54,159	61,364
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	2,968	2,980	3,875	1,780	2,304	3,017
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	6,723	6,244	11,919	8,933	12,374	6,454
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,909	1,179	190	475	550	750
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,842	2,090	1,955	780	1,710	2,622
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	—	71	394	440	20	124

@ : रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
1 मार्च 2010	47	17	—	—	—	7	66	5	39	101	64	5
2 मार्च 2010	2,236	611	293	281	1,022	951	5,631	4,892	369	4,919	1,773	99
3 मार्च 2010	2,388	810	458	176	803	706	5,981	4,764	324	4,260	1,142	123
4 मार्च 2010	1,938	892	1,101	97	724	625	5,747	4,820	841	4,090	1,415	208
5 मार्च 2010	2,155	771	393	79	641	569	6,355	6,043	524	3,010	1,043	103
बिक्री												
1 मार्च 2010	40	2	2	—	5	3	60	—	—	100	64	5
2 मार्च 2010	1,988	1,107	376	233	1,075	1,000	5,520	3,894	583	4,930	1,810	100
3 मार्च 2010	1,988	1,623	475	181	839	743	5,801	3,879	395	4,260	1,332	121
4 मार्च 2010	2,006	2,196	387	91	743	657	5,341	4,659	1,042	4,114	1,576	177
5 मार्च 2010	1,802	1,854	452	79	664	609	5,720	5,312	678	3,008	1,299	105

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

1	समाप्त सप्ताह					
	12 फरवरी 2010 @	19 फरवरी 2010	26 फरवरी 2010	5 मार्च 2010	12 मार्च 2010	19 मार्च 2010
1	2	3	4	5	6	7
राशि	686.06	988.03	992.21	708.87	1993.54	2286.16

@ : 12 फरवरी 2010 को बाजार बंद रहने के कारण आंकड़े 11 फरवरी 2010 को समाप्त सप्ताह के हैं।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	19 मार्च 2010					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	28,997	9,970	21,206	60,173	2,555	-20,630
राज्य सरकारें	1,07,129	—	—	250	1,07,379	5,686	5,409
अन्य	2,126	42,506	11,530	20,065	76,227	-2,575	9,985

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार - 2009-2010

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2009-2010 (19 मार्च 2010 तक)	2008-2009 (20 मार्च 2009 तक)	2008-2009	2009-2010 (19 मार्च 2010 तक)	2008-2009 (20 मार्च 2009 तक)	2008-2009
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल	4,51,000 \$	2,51,000	2,73,000 @	3,98,411 \$	2,06,972	2,28,972 @
2. भारिबैंक खुला बाजार परिचालन* बिक्री खरीद	9,082 84,557	9,383 83,248	9,932 1,04,480			

\$: इस में एमएसएस डीसिक्वेस्टेरिंग के 33,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

@ : इस में एमएसएस डीसिक्वेस्टेरिंग के 12,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

* : भारिबैंक के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)®

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	12 मार्च 2010 को समाप्त सप्ताह			19 मार्च 2010 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2009-10	—	—	—	—	—	—
2010-11	1.913	3.9927	4.5639	570	4.4473	5.1335
2011-12	193	5.2153	6.2987	790	5.1700	6.4000
2012-13	1.060	6.0579	6.6700	4.671	5.6593	6.2488
2013-14	626	6.8261	6.9406	710	6.6603	7.1766
2014-15	419	7.2652	7.9909	222	7.1877	7.6300
2015-18	12.899	7.5172	7.9300	12.523	7.3914	7.7888
2018-19	114	7.8478	8.0035	82	7.8500	8.0411
2019 से आगे	9.855	4.6524	8.4906	11.115	4.6488	8.4909
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1.152	4.0114	8.5400	1.509	8.1417	8.5380
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	629	3.0000	5.3557	440	4.2491	5.0019
ख) 15 - 91 दिन	5.638	3.5000	4.3382	3.192	3.9999	4.4202
ग) 92 - 182 दिन	275	4.3000	4.6500	225	4.4700	4.5601
घ) 183 - 364 दिन	775	4.9543	5.1001	1.056	4.7000	5.1000
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	10			63		
: खरीद	10			60 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,20,846	1.25 (1)	4.50 (8)	35,228	0.70 (1)	4.70 (3)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	651	2.25 (1)	3.15 (3)	60	2.95 (1)	3.40 (2)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	21,174	2.60 (1)	3.40 (3)	19,059	2.25 (1)	3.85 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	5,251	2.50 (1)	3.20 (3)	3,721	3.20 (1)	3.80 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	7,655	2.55 (1)	3.25 (3)	3,844	3.00 (1)	3.80 (2)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	—	—	—	400	—	4.75
: रिवर्स रिपो !	3,32,295	—	3.25	41,305	—	3.25

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ : इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की शून्य राशी (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 800 रूपए और 2,000 रूपए तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी डॉलर और 125 अमरीकी डॉलर है।

श्रीमती गुणजोत कौर द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 से प्रकाशित, संपादक श्रीमती गुणजोत कौर।